



Mr RAVISH KUMAR UPADHEYAY

14 Sep 1990

03:20 AM

Hazaribagh

Model: Web-MyKundli

Order No: 121707101

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 13-14/09/1990
दिन _____: गुरु-शुक्रवार
जन्म समय _____: 03:20:00 घंटे
इष्ट _____: 54:25:00 घटी
स्थान _____: Hazaribagh
राज्य _____: Jharkhand
देश _____: India

अक्षांश _____: 24:00:00 उत्तर
रेखांश _____: 85:23:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: 00:11:32 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 03:31:32 घंटे
वेलान्तर _____: 00:03:54 घंटे
साम्पातिक काल _____: 03:02:01 घंटे
सूर्योदय _____: 05:33:59 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:54:39 घंटे
दिनमान _____: 12:20:39 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: शरद
सूर्य के अंश _____: 27:06:37 सिंह
लग्न के अंश _____: 26:08:47 कर्क

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कर्क - चन्द्र
राशि-स्वामी _____: मिथुन - बुध
नक्षत्र-चरण _____: पुनर्वसु - 2
नक्षत्र स्वामी _____: गुरु
योग _____: वरियान
करण _____: विष्टि
गण _____: देव
योनि _____: मार्जार
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: शूद्र
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मार्जार
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: वायु
जन्म नामाक्षर _____: को-कोमल
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: लौह - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कन्या

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1912	भाद्रपद	23
पंजाबी	संवत : 2047	भाद्रपद	30
बंगाली	सन् : 1397	भाद्रपद	28
तमिल	संवत : 2047	आवनी	29
केरल	कोल्लम : 1166	चिंगम	29
नेपाली	संवत : 2047	भाद्रपद	29
चैत्रादि	संवत : 2047	आश्विन	कृष्ण 10
कार्तिकादि	संवत : 2047	भाद्रपद	कृष्ण 10

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 9
तिथि समाप्ति काल _____ : 11:27:02
जन्म तिथि _____ : 10
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : आर्द्रा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 21:00:23 घंटे
जन्म योग _____ : पुनर्वसु
सूर्योदय कालीन योग _____ : व्यतिपात
योग समाप्ति काल _____ : 20:42:15 घंटे
जन्म योग _____ : वरियान
सूर्योदय कालीन करण _____ : गर
करण समाप्ति काल _____ : 11:27:02 घंटे
जन्म करण _____ : विष्टि
भयात _____ : 15:49:04
भभोग _____ : 58:01:40
भोग्य दशा काल _____ : गुरु 11 वर्ष 7 मा 13 दि

घात चक्र

मास _____ : आषाढ़
तिथि _____ : 2-7-12
दिन _____ : सोमवार
नक्षत्र _____ : स्वाति
योग _____ : परिघ
करण _____ : कौलव
प्रहर _____ : 3
वर्ग _____ : मूषक
लग्न _____ : कर्क
सूर्य _____ : मीन
चन्द्र _____ : कुम्भ
मंगल _____ : मेष
बुध _____ : मकर
गुरु _____ : वृष
शुक्र _____ : मिथुन
शनि _____ : कुम्भ
राहु _____ : कर्क

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र


लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382


9835195382

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

		मं	चं
			के ल गु
रा			शु सू बु
श			

लग्न कुण्डली

मं		
चं		
के ल गु		रा
बु शु	सू	श

विंशोत्तरी
गुरु 11वर्ष 7मा 13दि
गुरु

14/09/1990

29/04/2106

गुरु	28/04/2002
शनि	28/04/2021
बुध	28/04/2038
केतु	28/04/2045
शुक्र	28/04/2065
सूर्य	28/04/2071
चन्द्र	28/04/2081
मंगल	27/04/2088
राहु	29/04/2106

योगिनी

पिंगला 1वर्ष 5मा 13दि
पिंगला

26/02/2026

26/02/2028

पिंगला	07/04/2026
धान्या	07/06/2026
भामरी	27/08/2026
भद्रिका	07/12/2026
उल्का	08/04/2027
सिद्धा	28/08/2027
संकटा	06/02/2028
मंगला	26/02/2028

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			कर्क	26:08:47	318:39:35	आश्लेषा	3	9	चंद्र	बुध	गुरु	---
सूर्य			सिंह	27:06:37	00:58:26	उ०फाल्गुनी	1	12	सूर्य	सूर्य	सूर्य	स्वराशि
चंद्र			मिथु	23:38:59	13:49:24	पुनर्वसु	2	7	बुध	गुरु	शनि	मित्र राशि
मंगल			वृष	12:24:08	00:24:40	रोहिणी	1	4	शुक्र	चंद्र	राहु	सम राशि
बुध	व	अ	सिंह	16:50:57	00:32:02	पू०फाल्गुनी	2	11	सूर्य	शुक्र	चंद्र	मित्र राशि
गुरु			कर्क	11:36:23	00:11:10	पुष्य	3	8	चंद्र	शनि	चंद्र	उच्च राशि
शुक्र			सिंह	14:23:19	01:14:21	पू०फाल्गुनी	1	11	सूर्य	शुक्र	शुक्र	शत्रु राशि
शनि	व		धनु	25:02:40	00:00:55	पूर्वाषाढा	4	20	गुरु	शुक्र	बुध	सम राशि
राहु			मक	12:47:16	00:01:19	श्रवण	1	22	शनि	चंद्र	राहु	मित्र राशि
केतु			कर्क	12:47:16	00:01:19	पुष्य	3	8	चंद्र	शनि	मंगल	मित्र राशि
हर्ष	व		धनु	11:52:11	00:00:03	मूल	4	19	गुरु	केतु	बुध	---
नेप	व		धनु	18:05:36	00:00:19	पूर्वाषाढा	2	20	गुरु	शुक्र	मंगल	---
प्लूटो			तुला	21:55:36	00:01:36	विशाखा	1	16	शुक्र	गुरु	शनि	---
दशम भाव			मेष	24:14:20	--	भरणी	--	2	मंगल	शुक्र	बुध	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:43:52


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कर्क 10:49:42	कर्क 26:08:47
2	सिंह 10:49:42	सिंह 25:30:38
3	कन्या 10:11:33	कन्या 24:52:29
4	तुला 09:33:24	तुला 24:14:20
5	वृश्चिक 09:33:24	वृश्चिक 24:52:29
6	धनु 10:11:33	धनु 25:30:38
7	मकर 10:49:42	मकर 26:08:47
8	कुम्भ 10:49:42	कुम्भ 25:30:38
9	मीन 10:11:33	मीन 24:52:29
10	मेष 09:33:24	मेष 24:14:20
11	वृष 09:33:24	वृष 24:52:29
12	मिथुन 10:11:33	मिथुन 25:30:38


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कर्क	26:08:47
2	सिंह	22:18:16
3	कन्या	22:05:46
4	तुला	24:14:20
5	वृश्चिक	26:17:46
6	धनु	26:56:56
7	मकर	26:08:47
8	कुम्भ	22:18:16
9	मीन	22:05:46
10	मेष	24:14:20
11	वृष	26:17:46
12	मिथुन	26:56:56


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति
विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा
पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : गुरु 11 वर्ष 7 मास 13 दिन

गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष
14/09/1990	28/04/2002	28/04/2021	28/04/2038	28/04/2045
28/04/2002	28/04/2021	28/04/2038	28/04/2045	28/04/2065
14/09/1990	शनि 01/05/2005	बुध 24/09/2023	केतु 24/09/2038	शुक्र 27/08/2048
शनि 27/12/1990	बुध 09/01/2008	केतु 21/09/2024	शुक्र 24/11/2039	सूर्य 27/08/2049
बुध 03/04/1993	केतु 17/02/2009	शुक्र 22/07/2027	सूर्य 31/03/2040	चंद्र 28/04/2051
केतु 10/03/1994	शुक्र 18/04/2012	सूर्य 28/05/2028	चंद्र 30/10/2040	मंगल 27/06/2052
शुक्र 08/11/1996	सूर्य 31/03/2013	चंद्र 27/10/2029	मंगल 28/03/2041	राहु 28/06/2055
सूर्य 27/08/1997	चंद्र 31/10/2014	मंगल 24/10/2030	राहु 16/04/2042	गुरु 26/02/2058
चंद्र 27/12/1998	मंगल 09/12/2015	राहु 13/05/2033	गुरु 23/03/2043	शनि 28/04/2061
मंगल 03/12/1999	राहु 15/10/2018	गुरु 19/08/2035	शनि 30/04/2044	बुध 27/02/2064
राहु 28/04/2002	गुरु 28/04/2021	शनि 28/04/2038	बुध 28/04/2045	केतु 28/04/2065

सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष
28/04/2065	28/04/2071	28/04/2081	27/04/2088	29/04/2106
28/04/2071	28/04/2081	27/04/2088	29/04/2106	00/00/0000
सूर्य 15/08/2065	चंद्र 27/02/2072	मंगल 24/09/2081	राहु 09/01/2091	गुरु 16/06/2108
चंद्र 14/02/2066	मंगल 27/09/2072	राहु 12/10/2082	गुरु 03/06/2093	शनि 15/09/2110
मंगल 22/06/2066	राहु 28/03/2074	गुरु 18/09/2083	शनि 09/04/2096	00/00/0000
राहु 16/05/2067	गुरु 28/07/2075	शनि 27/10/2084	बुध 28/10/2098	00/00/0000
गुरु 04/03/2068	शनि 26/02/2077	बुध 24/10/2085	केतु 15/11/2099	00/00/0000
शनि 14/02/2069	बुध 28/07/2078	केतु 22/03/2086	शुक्र 16/11/2102	00/00/0000
बुध 21/12/2069	केतु 26/02/2079	शुक्र 23/05/2087	सूर्य 11/10/2103	00/00/0000
केतु 28/04/2070	शुक्र 27/10/2080	सूर्य 27/09/2087	चंद्र 10/04/2105	00/00/0000
शुक्र 28/04/2071	सूर्य 28/04/2081	चंद्र 27/04/2088	मंगल 29/04/2106	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल गुरु 11 वर्ष 7 मा 20 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

बुध - शुक्र 21/09/2024 22/07/2027	बुध - सूर्य 22/07/2027 28/05/2028	बुध - चंद्र 28/05/2028 27/10/2029	बुध - मंगल 27/10/2029 24/10/2030	बुध - राहु 24/10/2030 13/05/2033
शुक्र 12/03/2025 सूर्य 03/05/2025 चंद्र 28/07/2025 मंगल 26/09/2025 राहु 01/03/2026 गुरु 17/07/2026 शनि 27/12/2026 बुध 23/05/2027 केतु 22/07/2027	सूर्य 07/08/2027 चंद्र 02/09/2027 मंगल 20/09/2027 राहु 05/11/2027 गुरु 17/12/2027 शनि 04/02/2028 बुध 19/03/2028 केतु 06/04/2028 शुक्र 28/05/2028	चंद्र 10/07/2028 मंगल 09/08/2028 राहु 26/10/2028 गुरु 03/01/2029 शनि 26/03/2029 बुध 07/06/2029 केतु 07/07/2029 शुक्र 01/10/2029 सूर्य 27/10/2029	मंगल 17/11/2029 राहु 11/01/2030 गुरु 28/02/2030 शनि 26/04/2030 बुध 17/06/2030 केतु 08/07/2030 शुक्र 06/09/2030 सूर्य 24/09/2030 चंद्र 24/10/2030	राहु 13/03/2031 गुरु 15/07/2031 शनि 10/12/2031 बुध 20/04/2032 केतु 13/06/2032 शुक्र 15/11/2032 सूर्य 01/01/2033 चंद्र 20/03/2033 मंगल 13/05/2033
बुध - गुरु 13/05/2033 19/08/2035	बुध - शनि 19/08/2035 28/04/2038	केतु - केतु 28/04/2038 24/09/2038	केतु - शुक्र 24/09/2038 24/11/2039	केतु - सूर्य 24/11/2039 31/03/2040
गुरु 31/08/2033 शनि 09/01/2034 बुध 07/05/2034 केतु 24/06/2034 शुक्र 09/11/2034 सूर्य 20/12/2034 चंद्र 27/02/2035 मंगल 17/04/2035 राहु 19/08/2035	शनि 21/01/2036 बुध 09/06/2036 केतु 05/08/2036 शुक्र 16/01/2037 सूर्य 06/03/2037 चंद्र 27/05/2037 मंगल 23/07/2037 राहु 18/12/2037 गुरु 28/04/2038	केतु 07/05/2038 शुक्र 31/05/2038 सूर्य 08/06/2038 चंद्र 20/06/2038 मंगल 29/06/2038 राहु 21/07/2038 गुरु 10/08/2038 शनि 03/09/2038 बुध 24/09/2038	शुक्र 04/12/2038 सूर्य 25/12/2038 चंद्र 30/01/2039 मंगल 24/02/2039 राहु 29/04/2039 गुरु 24/06/2039 शनि 31/08/2039 बुध 30/10/2039 केतु 24/11/2039	सूर्य 01/12/2039 चंद्र 11/12/2039 मंगल 19/12/2039 राहु 07/01/2040 गुरु 24/01/2040 शनि 13/02/2040 बुध 02/03/2040 केतु 10/03/2040 शुक्र 31/03/2040
केतु - चंद्र 31/03/2040 30/10/2040	केतु - मंगल 30/10/2040 28/03/2041	केतु - राहु 28/03/2041 16/04/2042	केतु - गुरु 16/04/2042 23/03/2043	केतु - शनि 23/03/2043 30/04/2044
चंद्र 18/04/2040 मंगल 30/04/2040 राहु 01/06/2040 गुरु 30/06/2040 शनि 02/08/2040 बुध 01/09/2040 केतु 14/09/2040 शुक्र 19/10/2040 सूर्य 30/10/2040	मंगल 08/11/2040 राहु 30/11/2040 गुरु 20/12/2040 शनि 13/01/2041 बुध 03/02/2041 केतु 11/02/2041 शुक्र 08/03/2041 सूर्य 16/03/2041 चंद्र 28/03/2041	राहु 25/05/2041 गुरु 15/07/2041 शनि 14/09/2041 बुध 07/11/2041 केतु 29/11/2041 शुक्र 01/02/2042 सूर्य 20/02/2042 चंद्र 24/03/2042 मंगल 16/04/2042	गुरु 31/05/2042 शनि 24/07/2042 बुध 10/09/2042 केतु 30/09/2042 शुक्र 26/11/2042 सूर्य 13/12/2042 चंद्र 11/01/2043 मंगल 30/01/2043 राहु 23/03/2043	शनि 26/05/2043 बुध 22/07/2043 केतु 15/08/2043 शुक्र 21/10/2043 सूर्य 10/11/2043 चंद्र 14/12/2043 मंगल 07/01/2044 राहु 07/03/2044 गुरु 30/04/2044

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	5
भाग्यांक	6
मित्र अंक	3, 5, 9, 6
शत्रु अंक	2, 4, 8
शुभ वर्ष	23,32,41,50,59
शुभ दिन	मंगल, सोम, गुरु
शुभ ग्रह	मंगल, चन्द्र, गुरु
मित्र राशि	कन्या, कुम्भ
मित्र लग्न	तुला, मीन, वृष
अनुकूल देवता	गणेश
शुभ रत्न	मोती
शुभ उपरत्न	चन्द्रमणि
भाग्य रत्न	पुखराज
शुभ धातु	रजत
शुभ रंग	श्वेत
शुभ दिशा	पश्चिमोत्तर
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	शंख, कपूर, श्वेतचन्दन
दान अन्न	चावल
दान द्रव्य	दही

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382


9835195382

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मूंगा	मंगल	97%	धनार्जन, व्यावसायिक उन्नति, सन्तति सुख
पुखराज	गुरु	88%	स्वास्थ्य, शत्रु व रोग मुक्ति, भाग्योदय
मोती	चंद्र	70%	कम खर्च, स्वास्थ्य
माणिक्य	सूर्य	65%	धन
हीरा	शुक्र	61%	धन, धनार्जन, सुख
लहसुनिया	केतु	52%	स्वास्थ्य, कम खर्च
गोमेद	राहु	34%	दाम्पत्य कष्ट, शत्रु व रोग
पन्ना	बुध	16%	धन हानि, व्यय, पराक्रम हानि
नीलम	शनि	0%	शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट, दुर्घटना



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
गुरु	28/04/2002	72%	77%	100%	0%	100%	47%	0%	34%	52%
शनि	28/04/2021	53%	58%	84%	28%	88%	67%	0%	47%	28%
बुध	28/04/2038	72%	58%	97%	41%	88%	67%	0%	34%	52%
केतु	28/04/2045	53%	58%	100%	16%	88%	67%	0%	9%	64%
शुक्र	28/04/2065	53%	58%	97%	28%	88%	73%	0%	47%	58%
सूर्य	28/04/2071	78%	77%	100%	16%	94%	47%	0%	9%	28%
चंद्र	28/04/2081	72%	83%	97%	28%	88%	61%	0%	9%	28%
मंगल	27/04/2088	72%	77%	100%	0%	94%	61%	0%	9%	58%
राहु	29/04/2106	53%	58%	84%	16%	88%	67%	0%	55%	28%

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	15/12/1990-05/03/1993 15/10/1993-10/11/1993	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	07/06/2000-23/07/2002 08/01/2003-07/04/2003	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	23/07/2002-08/01/2003 07/04/2003-06/09/2004 13/01/2005-26/05/2005	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	10/09/2009-15/11/2011 16/05/2012-04/08/2012	-----

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	24/01/2020-29/04/2022 12/07/2022-17/01/2023	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	08/08/2029-05/10/2029 17/04/2030-31/05/2032	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	22/10/2038-05/04/2039 13/07/2039-28/01/2041 06/02/2041-26/09/2041	-----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/03/2049-10/07/2049 04/12/2049-25/02/2052	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	27/05/2059-11/07/2061 13/02/2062-07/03/2062	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	30/08/2068-04/11/2070	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया

फल

शुभ
शुभ
अशुभ
अशुभ
शुभ

क्षेत्र

दम्पति
धनार्जन
कम खर्च
बुरा स्वास्थ्य
पराक्रम

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्मकाल में मंगल की स्थिति चन्द्रकुंडली में द्वादश भाव में है अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं। चूंकि चन्द्र से मांगलिक होने का दोष अधिक प्रबल नहीं होता। अतः इसके प्रभाव से आपकी प्रवृत्ति किंचित व्ययशील रहेगी तथा शुभाशुभ कार्यों पर आप समय समय पर व्यय करते रहेंगे। जिससे आपको अल्प मात्रा में आर्थिक परेशानी हो सकती है लेकिन इसका प्रभाव अल्प रहेगा। तथा सामान्य रूप से धनार्जन होता रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। मानसिक परेशानी की अनुभूति आपको समय समय पर होती रहेगी। साथ ही सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न होंगे लेकिन उनका सामना तथा समाधान करने में आप समर्थ रहेंगे। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा परन्तु स्वभाव में किंचित उग्रता का भाव हो सकता है लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

मंगल के इस प्रभाव से आपके विवाह में किंचित विलम्ब हो सकता है परन्तु इस कार्य में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही विवाह पूर्व किसी वार्ता में गतिरोध भी उत्पन्न हो सकता है लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। विवाह के पश्चात आपका दाम्पत्य जीवन परस्पर सामंजस्य के कारण अनुकूल रहेगा तथा इसका उचित उपभोग करने में आप समर्थ रहेंगे।

चन्द्रकुंडली में मंगल की द्वादश स्थिति के प्रभाव से आपकी प्रवृत्ति व्ययशील होगी परन्तु प्रचुर मात्रा में धनार्जन होने के कारण इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा साथ ही सांसारिक कार्यों में उत्पन्न व्यवधानों तथा समस्याओं का सामना तथा समाधान करने में भी आप सफल होंगे। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि से भाई बहनों का सुख मध्यम रहेगा। पराक्रम तथा आत्मबल में वृद्धि होगी जिससे आपके लाभ एवं उन्नति के मार्ग हमेशा प्रशस्त रहेंगे। षष्ठ

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

भावस्थ मंगल की दृष्टि के प्रभाव से शत्रुवर्ग पर विजय प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। यदा कदा पित या गर्मी द्वारा उत्पन्न रोगों से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पत्नी का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा स्वभाव में उग्रता भी रहेगी लेकिन परस्पर सामंजस्य के कारण आप सुखी दाम्पत्य जीवन का उपभोग करने में समर्थ रहेंगे।

इस प्रकार अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं आनन्दमय बनाने के लिए आपको किसी मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए। जिससे परस्पर मांगलिक दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक स्थानों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि या राहु सदृश पाप ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपके सुख एवं सौभाग्य में वृद्धि होगी तथा धन ऐश्वर्य से युक्त होकर आनन्द पूर्वक आप अपने दाम्पत्य जीवन का उपभोग करेंगे तथा एक दूसरे को पूर्ण सुख एवं सहयोग भी प्रदान करेंगे।



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृों का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।
- नवम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।
- लग्नेश द्वादश भाव में स्थित है और उस पर शनि का प्रभाव है।
- त्रिक भाव का स्वामी लग्न में स्थित है और उस पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में चन्द्र, मंगल और गुरु के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें। दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें। ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान करें।

आपकी कुण्डली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

आपकी कुंडली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राह्मण और पति को दान दें। विद्यालय में पुस्तकों का दान करें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जातक भाग्यवान्, सम्पत्तिवान्, मुखरोगी, झगड़ालू, नेत्रकर्णदन्तरोगी, राजभीरु, घरेलू जीवन दुःखी एवं स्त्री के लिए कुटुम्बियों से झगड़ने वाला होता है।

सिंह राशि में रवि हो तो जातक सत्संगी पुरुषार्थी, योगाभ्यासी, वनविहारी, क्रोधी, गम्भीर, उत्साही, तेजस्वी एवं धैर्यशाली होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वितीय भाव में है। अतः आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा अल्प मात्रा में शारीरिक दुर्बलता की अनुभूति होती रहेगी। आपके प्रति उनका प्रेम भाव रहेगा तथा विद्यार्जन एवं धनार्जन संबंधी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको पूर्ण सहायता तथा सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही वे समय समय पर आपको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

आप भी उनका हार्दिक सम्मान तथा आदर करेंगे एवं यत्नपूर्वक उनकी सेवा करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। उनकी आज्ञा का पालन करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेद होने से विवाद आदि की स्थिति भी उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समय पश्चात सब कुछ ही ठीक हो जाएगा।

चन्द्र

बारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक मृदुभाषी, चिन्ताशील, एकात्प्रिय, क्रोधी, कफरोगी, चंचल, नेत्ररोगी एवं अधिक व्यय करने वाला होता है।

मिथुन राशि में चन्द्रमा हो तो जातक विद्वान्, अध्ययनशील, सुन्दर, रतिकुशल, भोगी, मर्मज्ञ, नेत्र चिकित्सक, अच्छा वक्ता एवं अच्छा अन्तर्ज्ञान वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति द्वादश भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा रहेगा तथा यदा कदा कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपके प्रति उनके मन में वात्सल्य का भाव रहेगा तथा जीवन में आपको प्रायः यथाशक्ति अपना सहयोग प्रदान करती रहेंगी। आप उनसे अच्छे तथा पुण्य के कार्यों के प्रति प्रवृत्त होंगे तथा समयानुसार दानादि को भी उन्हीं के कथनानुसार सम्पन्न करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति आदर का भाव रहेगा एवं उनकी आज्ञा का पालन आप कुछ अवसरों को छोड़कर करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध विशेष मधुर नहीं होंगे क्योंकि आप में काफी मतभेद रहेंगे तथापि सांसारिक संबंधों में कोई तनाव नहीं रहेगा एवं सामंजस्य पूर्वक आप के परस्पर व्यवहार चलते रहेंगे। साथ ही उन्हें कष्ट के समय आप अपनी ओर से पूर्ण सहयोग तथा सहायता अवश्य प्रदान करेंगे।

मंगल

ग्यारवें भाव में मंगल हो तो जातक धैर्यवान्, न्यायवान्, प्रवासी, साहसी, लाभ करने वाला, क्रोधी, झगड़ालू, दम्भी एवं कटुभाषी होता है।

वृष राशि में मंगल हो तो जातक अत्यन्त कामुक, अनैतिक आचरण, पुत्रद्वेषी, प्रवासी, सुखहीन, लड़ाकू प्रकृति, वंचक, सिद्धान्त रहित, स्वार्थी एवं क्रूर होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति एकादश भाव में है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक व्याकुलता की वे अनुभूति करते रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह तथा सम्मान का भाव रहेगा एवं धन सम्पत्ति से भी वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में अवसरानुकूल आपको अपना वांछित सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आप आय के साधनों की वृद्धि करने में भी उनसे सहायता अर्जित करेंगे। आप को सुख दुःख में उनसे पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा वे आप पर विश्वास करेंगे।

आप भी हृदय से उनके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे तथा समयानुसार उनको आधिक तथा अन्य क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते रहेंगे। इसके साथ ही उनकी आय की वृद्धि में भी आप वांछित सहयोग देंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर ही रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेदों के कारण उनमें तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी परन्तु यह स्थाई रहेगी एवं कुछ समय के बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा।

बुध

द्वितीयभाव में बुध हो तो जातक सुखी, सुन्दर, वक्ता, साहसी, सत्कार्यकारक, संधी, दलाल या वकील का पेशा करने वाला, मिष्टाभभोजी, गुणी एवं मितव्ययी होता है।

सिंह राशि में बुध हो तो जातक मिथ्याभाषी, कुकर्मी, ठग, कामुक, भ्रमणशील, अभिमानी, वक्ता, कम उम्र में विवाह, आवेशपूर्ण स्वभाव एवं सरकारी नौकर होता है।

गुरु

लग्न (प्रथम) में गुरु हो तो जातक विद्वान् दीर्घायु, ज्योतिषी कार्यपरायण, लोकसेवक, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, स्पष्टवक्ता, स्वाभिमानी, सुन्दर, सुखी, विनीत, पुत्रवान् धनवान्, राज्यमान, सुन्दर एवं धर्मात्मा होता है।

कर्क राशि में गुरु हो तो जातक सदाचारी, विद्वान्, सत्यवक्ता महायशस्वी, साम्यवादी, सुधारक, योगी, लोकमान्य, सुखी, धनी, नेता, कुशाबुद्धि एवं वफादार होता है।

शुक्र

द्वितीयभाव में शुक्र हो तो जातक भाग्यवान्, साहसी, समयज्ञ,

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

मिष्टान्नभोजी, यशस्वी, लोकप्रिय, जौहरी, दीर्घजीवी, कवि, कुटुम्बयुक्त, सुखी एवं धनवान् होता है।

सिंह राशि में शुक हो तो जातक, अल्पसुखी उपकारी, चिन्तातुर, शिल्पज्ञ, स्त्रियों के द्वारा धन अर्जित करने वाला, कामुक, आवेशपूर्ण एवं अपने को दूसरों से ऊँचा समझने वाला होता है।

शनि

षष्ठभाव में शनि हो तो जातक बलवान्, आचारहीन, व्रणी, जातिविरोधी, श्वासरोगी, कण्ठरोगी, योगी, शत्रुहन्ता भोगी एवं कवि होता है।

धनु राशि में शनि हो तो जातक व्यवहारज्ञ, पुत्र की कीर्ति से प्रसिद्ध सदाचारी, वृद्धावस्था में सुखी, सक्रिय, चतुर शान्तिप्रिय, दुःखी विवाहित जीवन एवं धनी होता है।

राहु

सप्तम भाव में राहु हो तो चतुर, लोभी, दुराचारी, दुष्कर्मी वातरोगजनक, भ्रमणशील, व्यापार से हानिदायक एवं स्त्रीनाशक होता है।

मकर राशि में राहु हो तो जातक मितव्ययी, कुटुम्बहीन एवं दाँत रोगी होता है।

केतु

लग्न (प्रथम) में केतु हो तो जातक चंचल मूर्ख दुराचारी, भीरु तथा वृश्चिक राशि में हो तो सुखकारक, धनी एवं परिश्रमी होता है।

कर्क राशि में केतु हो तो जातक वातविकारी, भूतप्रेत पीड़ित एवं दुःखी होता है।

दशा विश्लेषण

**महादशा :- बुध
(28/04/2021 - 28/04/2038)**

बुध की महादशा 28/04/2021 आरम्भ होगी और 17 वर्ष की होकर 28/04/2038 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में बुध द्वितीय भाव में स्थित है। बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है। इसके पूर्व आपकी 19 वर्ष की शनि दशा चल रही थी। उस दशा के दौरान आपको समृद्धि की प्राप्ति, जीवन-वृत्ति में उन्नति तथा यात्रा हुई होगी। बुध की इस दशा के दौरान आपको धन-समृद्धि, परिवार के सुख, यश तथा ख्याति की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप सक्रिय, स्फूर्तिवान तथा उत्साह से भरे रहेंगे। संक्रामक बीमारी, ज्वर, गले की समस्या, ब्रोंकाइटिस, स्नायविक समस्या, गठिया आदि मौसमी बीमारियों को छोड़कर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपने स्वास्थ्य के रखरखाव के लिये आपको अधिक मानसिक तथा शारिरिक श्रम से बचना चाहिए।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ होगी। आपका धन-संग्रह होगा। अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि के कारण आपको पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति भी होगी। आपको सट्टे तथा निवेश में लाभ मिलेगा। अर्थिक दृष्टि से यह दशा अति उत्तम होगी। जीविका के लिये लेखा, पत्रकारिता, शिक्षण, वैमानिकी, अन्तरिक्ष अनुसन्धान अन्य सभी बौद्धिक कार्य का चयन कर सकते हैं। सूती कपड़ा, रत्न, पुस्तक, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर एवं हस्तनिर्मित वस्तुओं का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि, पदोन्नति तथा यात्रा होगी। आपको आपके उच्चाधिकारियों का सदभाव प्राप्त होगा और आप अपनी सामर्थ्य के कारण पहचाने जायेंगे। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों के व्यापार में शुभ परिवर्तन होगा। आपकी आय तथा लाभ अच्छा होगा। आपके कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक और जीवन-वृत्ति की दृष्टि से यह दशा अति उत्तम है।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

सूर्य की अन्तर्दशा के दौरान आपको वाहन का सुख मिलेगा। आप नया वाहन प्राप्त कर सकते हैं। आपको जीवन का सारा सुख मिलेगा। आपको माता से लाभ मिलेगा। इस दशा के दौरान भवन की प्राप्ति होगी। सम्पत्ति का लेन-देन बहुत लाभदायक होगा और जमीन-जायदाद से लाभ मिलेगा। चन्द्र की अन्तर्दशा के दौरान आपकी छोटी तथा मंगल की अन्तर्दशा के दौरान लम्बी यात्राएं होंगी।

शिक्षा :

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आपकी शैक्षिक वृत्ति नयी ऊँचाइयों को छूएगी। आप परीक्षाओं तथा प्रतियोगिताओं में सफल होंगे, जिससे लोगों के बीच जाने जाएंगे। गणित, लेखा, वाणिज्य, विज्ञान तथा साहित्य में आपकी रुची होगी। आप ललितकला

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

तथा उन सभी कार्यों में कुशल होंगे जिनके कारण मनुष्य बुद्धिमान और बहुमुखी होता है और विभिन्न विषयों में उसकी रुचि होती है। आपमें भाषण-क्षमता विद्यमान है।

परिवार :

आपको आपके बच्चों से अपार सुख मिलेगा या आपके परिवार में किसी शिशु का जन्म हो सकता है। आपके जीवन साथी के कार्य-क्षेत्र में शुभ परिवर्तन हो सकता है। उन्हें अचानक धन-लाभ मिलेगा तथा सम्पत्ति में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। आपके जीवन साथी के साथ आपका सम्बन्ध उत्तम रहेगा। आपकी माता को लाभ होगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी तथा उनके अच्छे मित्र होंगे जबकि आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, विरोधियों पर विजय मिलेगी और शासन से लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई-बहनों का दान-पुण्य आदि शुभ कार्यों पर व्यय होगा, उनकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होगी और सफलता मिलेगी। आपके बड़े भाई-बहनों को सुख और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी, उनका माता के साथ सम्बन्ध अच्छा रहेगा और उनके मित्र होंगे। आपके अनेक मित्र होंगे, पारिवारिक सुख मिलेगा और रत्नों तथा अच्छे कपड़ों की प्राप्ति होगी।

अन्तर्दशा :

बुध की महादशा में बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपकी शिक्षा उत्तम होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। आगे केतु की अन्तर्दशा कुछ मानसिक तनाव दे सकती है। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप यश, ख्याति और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सूर्य की अन्तर्दशा के कारण सुख तथा समृद्धि में वृद्धि होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा में आपकी छोटी यात्रा होंगी जबकि मंगल की अन्तर्दशा के फलस्वरूप यात्रा और व्यय होगा। इसके बाद राहु की अन्तर्दशा के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी जबकि गुरु की अन्तर्दशा के फलस्वरूप समृद्धि, सम्पत्ति, यश और ख्याति की प्राप्ति और जीविका में उन्नति होगी।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

**अंतर्दशा :- बुध - शुक्र
(21/09/2024 - 22/07/2027)**

आपके लिए बुध की महादशा 28/04/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 10 मास होगी। आपके लिए यह 21/09/2024 को प्रारंभ होकर 22/07/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, शांति और समृद्धि का कारक है।

इस अवधि में आपका घरेलू जीवन सुखी रहेगा। भोग-विलास के साधन उपलब्ध होंगे। विभिन्न माध्यमों से धनागम होगा। मृदुवाणी के लिए प्रशंसा होगी। कला और साहित्य में रुचि होगी। प्रसिद्ध और धनी बनेंगे। रिश्तेदार सहायता करेंगे। विवाहित जीवन सुखी रहेगा। वसीयत आदि से धनलाभ हो सकता है। साझेदार या जीवनसाथी के माध्यम से धनागम हो सकता है। अध्यात्म में रुचि होगी।

आपके जीवनसाथी को साझेदार या विरासत से धनलाभ हो सकता है। आपके पिता स्पर्धियों पर विजयी होंगे। माता सफल, भाग्यशाली और लोकप्रिय होंगी। आपके भाई-बहनों के लिए शत्रुओं पर विजय, उच्च पद, सुखद यात्राएं, वाहन का संकेत है।

आपकी संतान लोकप्रिय, सफल, प्रसन्न होगी; परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो आय अच्छी होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो आय में वृद्धि होगी। परामर्शदाता धनी बनेंगे। व्यापारियों के कार्य में परिवर्तन हो सकता है, अचानक लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नेत्रों का ध्यान रखें। शुभत्व में वृद्धि के लिए श्वेत वस्त्र, चावल और दही का दान करें।

**अंतर्दशा :- बुध - सूर्य
(22/07/2027 - 28/05/2028)**

आपके लिए बुध की महादशा 28/04/2021 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चौथी अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 22/07/2027 को प्रारंभ होकर 28/05/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आपका धनार्जन उत्तम रहेगा। रुके काम पूर्ण होंगे। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप पैसा सोच विचारकर खर्च करेंगे। मित्रों और संबंधियों से संबंध उत्तम रहेंगे। विरासत में धन मिल सकता है। जीवनसाथी के माध्यम से धन आ सकता है। अध्यात्म और पराविद्या में रुचि होगी।

आपके जीवनसाथी को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आपके पिता को शत्रुओं और विरोधियों पर विजय मिलेगी। माता को आसानी से सफलता

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

मिल जाएगी, उच्च पद प्राप्त होगा, सम्मान मिलेगा और धनार्जन उत्तम होगा। आपके भाई-बहनों को घरेलू सुख रहेगा। अचल संपत्ति क्रय करेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी।

आपकी संतान की प्रोन्नति होगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो सौभाग्यशाली रहेंगे, यात्रा होगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाता धन और उच्चपद प्राप्त करेंगे। व्यापारियों के काम में परिवर्तन होंगे, अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, अचानक धन आ सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नेत्रों का ध्यान रखें। शुभत्व में वृद्धि के लिए गेहूं का दान करें।

**अंतर्दशा :- बुध - चन्द्र
(28/05/2028 - 27/10/2029)**

आपकी बुध की महादशा 28/04/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष 5 मास होगी। आपके लिए यह 28/05/2028 को प्रारंभ होकर 27/10/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, सरकारी कृपा और चेहरे की चमक का कारक है।

इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ेंगे मगर वे शुभ और धार्मिक कार्यों पर होंगे। यात्राएं हो सकती हैं। विदेश जा सकते हैं। ज्ञानार्जन में रुचि होगी। मातहत और किरायेदार सहयोग करेंगे। मुकदमे में जीत होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

आपके जीवनसाथी के कार्यालय में सुविधाएं उत्तम होंगी; विस्तृत कार्यों में सफल होंगे। आपके पिता अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं, उनका घरेलू जीवन सुखी रहेगा, अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं, अचल संपत्ति और भूमि से लाभ होगा। माता सुखी, भाग्यशाली और धनी बनेंगी।

आपके भाई-बहन शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफल होंगे, धन और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे; आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। घरेलू जीवन सुखी रहेगा। आपकी संतान के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अगर वे कार्यरत हैं तो खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्रा, तबादले, परिवर्तन का संकेत है।

अगर आप सेवारत हैं तो साझेदारी से लाभ होगा। परामर्शदाताओं को संचार माध्यम से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य, विशेषकर नेत्रों और पैरों का ध्यान रखें। अरिष्ट से बचाव के लिए सफेद चीजें, वस्त्र, चावल और दूध का दान करें।

**अंतर्दशा :- बुध - मंगल
(27/10/2029 - 24/10/2030)**

आपके लिए बुध की महादशा 28/04/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन रहेगी। यह 27/10/2029 को प्रारंभ होकर 24/10/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, महत्वाकांक्षा और

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र
लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382
9835195382

आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आपको हर प्रकार से लाभ होगा। धनागम होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, विभिन्न वस्तुएं क्रय करेंगे। आप धनी, सफल और प्रभावशाली बनेंगे। बहुत से मित्र होंगे जिनसे सहायता मिलेगी। संतान सुखकारी रहेगी। निवेश और सट्टेबाजी से लाभ हो सकता है। तकनीकी शिक्षा में सफल होंगे। मातहत सहयोग करेंगे। किराये से अच्छी आय होगी। मुकदमे में जीत होगी। कट्ट वचनों के प्रयोग से बचें।

आपके जीवनसाथी भाग्यशाली होंगे; आय अच्छी होगी। आपके पिता धनी बनेंगे, सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

माता को अचानक धनलाभ हो सकता है; अप्रत्याशित घटना घट सकती है।

आपके भाई-बहनों के लिए यात्रा, आकांक्षाओं की पूर्ति, ज्ञान-विज्ञान से संबंधित कार्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, धन और आत्म-विश्वास का संकेत है।

अपकी संतान को सामूहिक कार्यों में लाभ होगा। अगर वे सेवारत हैं तो साझेदारी से लाभ होगा, यात्राएं होंगी।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय में खुशी का वातावरण रहेगा। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यापारी सौभाग्यशाली रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कानों में मामूली शिकायत हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।

अंतर्दशा :- बुध - राहु (24/10/2030 - 13/05/2033)

आपके लिए बुध की महादशा 28/04/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा राहु की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 6 मास 18 दिन रहेगी। आपके लिए यह 24/10/2030 को प्रारंभ होकर 13/05/2033 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक समृद्धि और अचानक, अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है।

इस अवधि में आपको साझेदारी से लाभ होगा। व्यापार में लाभ होगा। लाभ में वृद्धि होगी। इच्छाशक्ति उत्तम होगी, स्वतंत्र निर्णय लेंगे। समाज में सफलता मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ हो सकता है। स्पर्धियों पर विजय होगी। विवाह हो सकता है। व्यापार संबंधी यात्रा हो सकती है; विदेश भी जा सकते हैं। उच्चपद प्राप्त होगा। अन्य लोग मदद करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप दूसरों की सहायता करेंगे।

आपके जीवनसाथी को धन का लाभ होगा। आपके पिता को निवेश और सट्टेबाजी में लाभ हो सकता है। माता अचल संपत्ति प्राप्त करेंगी; घरेलू सुख रहेगा। आपके भाई-बहनों के लिए सौभाग्य, निवेश में लाभ, यात्रा, शिक्षा में प्रसिद्धि, भौतिक सुखों का संकेत है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

आपकी संतान शिक्षा के लिए समर्पित रहेगी, दृढ़प्रतिज्ञ होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो इच्छाएं पूर्ण होंगी, कार्य में लाभ होगा, धनी बनेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो आय में वृद्धि होगी। परामर्शदाताओं का लाभ बढ़ेगा, व्यस्त रहेंगे। व्यापारियों का लाभ बढ़ेगा, कार्यप्रणाली उत्तम होगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए हनुमानजी के बजरंग बाण का पाठ करें।



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382